



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2010 (कार्तिक 22, 1932)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2010 (KARTIKA 22, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. ए-22012/1/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री पी. के. बाली, अवर सचिव को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 (अपराह) से अगले आदेश होने तक तदैव (अवर सचिव) पद पर नियुक्त करती हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-38012/2/2010-पीएमई--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में उप सचिव श्री एम. एस. एस. नायर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. आर.एस./3/1/2010/99-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशासी अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 27 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

(i) श्री अमित कुमार

(ii) श्रीमती ए. एस. चक्रवाणी

2. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

## लोक सभा सचिवालय

दिनांक 20 सितम्बर 2010

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 सितम्बर 2010

सं. पीएफ-776-आर(3)/जीएन-6469/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपए के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (लार्डिस) को 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपए के वेतन बैंड में अपर निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 06 सितम्बर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :--

1. श्रीमती इंद्राणी चाल्स
2. कुमारी मंजू जैन

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-801-आर(3)/जीएन-6470/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों (लार्डिस) को 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपए के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 06 सितम्बर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :--

1. श्रीमती मुसरत नौशाद
2. श्री संजीव सचदेवा
3. श्रीमती शांता वर्मा

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-820-आर(3)/जीएन-6471/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के वेतन बैंड में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 06 सितम्बर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं :--

1. श्रीमती सिम्मी मुदगिल
2. श्रीमती उर्मिला शर्मा
3. सुश्री ललिता अय्यर

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2010

सं. एफ-15/07/2009/जीएन-6472/एएन-1--माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्रीमती मीरा कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में अतिरिक्त निजी चिव, डॉ. सुनील जोगी द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र 03 सितम्बर, 2010 के पराह से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ-22/2/2010/जीएन-6473/एएन-1--श्री मौहम्मद मोतसिम, स्थानापन्न सहायक संपादक ने सहायक संपादक के ग्रेड में परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. पीएफ-1410-आर(3)/जीएन-6000/एएन-1/2007 के क्रम में है।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2010

सं. एफ-15/21/2010/एएन-1/जीएन-6474/2010--अध्यक्ष महोदया, श्री टी. के. विश्वनाथन, पूर्व सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार तथा विधि और न्याय मंत्री के वर्तमान सलाहकार, को 90,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में संविदा आधार पर और बंबिनेट सचिव के रैंक तथा हैसियत में लोक सभा और लोक सभा सचिवालय के महासचिव के रूप में 01 अक्टूबर, 2010 से 31 अगस्त, 2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं

2. उनकी नियुक्ति की विस्तृत निबंधन और शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2010

सं. पीएफ-1322-आर(3)/जीएन-6475/एएन-1/2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जय भगवान शर्मा, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 30 सितम्बर, 2010 के अपराह से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-1316-आर(3)/जीएन-6476/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपए के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (अनुवाद) को 15,600--39,100/- रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपए के वेतन बैंड में 30 सितम्बर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं :--

1. श्री प्रेम लाल बमराड़ा
2. श्री नवीन चन्द्र खुल्बे
3. श्री बलराम सूरी
4. श्रीमती सरिता नागपाल
5. श्री जय भगवान शर्मा
6. श्री सुरेश चन्द्र काले
7. सुश्री उषा जैन

8. श्री पीयूष चन्द्र दत्त
9. श्रीमती परमजीत करोलिया
10. श्री प्रह्लाद मुंशी
11. श्री धनी राम

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/21/2010-एएन-1/जीएन-6477/2010--लोक सभा और लोक सभा सचिवालय के महासचिव के रूप में संविदा की विस्तारित अवधि की समाप्ति पर अध्यक्ष महोदया, श्री पी.डी.टी. आचारी को 30 सितम्बर, 2010 के अपराह्न से महासचिव का पद त्याग करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं।

2. अध्यक्ष महोदया, श्री पी.डी.टी. आचारी को उपर्युक्त तारीख से सभा (लोक सभा) के मानद अधिकारी के रूप में भी सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-38012/06/2010-प्रशा.-IV (वि.का.)--श्री बिजेन्द्र कुमार भार्गव, अपर विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, बंगलौर अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आशा सोय, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. के-13017/5/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ज्ञान प्रकाश मित्तल को उस तारीख, जब से वह अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. के-11017/16/2010-यू.एस.-II (v)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आशुतोष मोहंता को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित

करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (vi)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री विनोद कुमार शर्मा को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (vii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री हरजिन्दर सिंह भल्ला को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (viii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री श्रीनिवास अग्रवाल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (ix)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायविद् श्रीमती अरूणा सुरेश को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (xi)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री भबानी प्रसाद राय को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले केरल उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (x)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मुद्रासि जेयपाल को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (i)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री विजय मनोहर सहाय को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्रीमती पूनम श्रीवास्तव को झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (iv)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री दंतुलूरि श्रीनिवास गानाथ वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष

स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

सं. के-11017/16/2010-यू.एस. II (iii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्रीमती तूम मीना कुमारी को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को या उससे पहले पटना उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. I-11014/5/2010-आईपीएस-IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम, मेघालय और केरल की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार सुश्री उमा, आईपीएस (असम-मेघालय : 2007) का विवाह श्री देवेश कुमार बेहेरा, आईपीएस (केरल : 2007) के साथ होने के आधार पर उन्हें असम-मेघालय के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग से केरल के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. 24012/3/2010-एआईएस. II--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग के सदस्य डॉ. रवनीत सिंह, आई.ए.एस. (कर्नाटक : 2005) के त्याग-पत्र को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्वीकार करते हैं।

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. 32013/3/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के सीएसएस संवर्ग की एक नियमित अनुभाग अधिकारी श्रीमती प्रिया महादेवन को सीएसएस ग्रेड-1 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 1 अक्टूबर, 2010 के पूर्वानुमान से अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्ति करती है।

जयन्ती श्रीराम, अवर सचिव

## विदेश मंत्रालय

कार्यालय : उपन्यायाचार अधिकारी-III

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. डी-III/460/सीएफ-40/2010--भारत की राष्ट्रपति ने सुश्री उपेक्षा समरातुंगा की मुम्बई में लोकतांत्रिका समाजवादी गणराज्य श्री लंका के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

सुश्री उपेक्षा समरातुंगा का कौंसली क्षेत्राधिकार होगा : महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात राज्य।

विनय कुमार, उपन्यायाचार अधिकारी-III

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

करेंसी निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. 1/6/2010-एसपीएमसी--राष्ट्रपति, श्री डी. आर. रोहिल्ला की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उन्हें 30 सितम्बर, 1988 (पूर्वाह्न) से बैंक नोट प्रेस, देवास (म. प्र.) में मूल रूप में 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित केमिस्ट (इंक टेक्नोलॉजिस्ट) ग्रेड-I (समूह 'क' राजपत्रित), वेतन बैंड 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-2), के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. एस. रावत, निदेशक (सी. एंड सी.)

## वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. ए-12026/2/2008/डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को (नीचे तालिका के कालम 2 में वर्णित) उनके नामों के सामने तालिका में विहित अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 में, रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु.

ग्रेड वेतन सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न ऋण वसूली अधिकारणों में वसूली अधिकारियों के पद पर नियुक्त करती है :--

क्र.	चयनित अधिकारी	नियुक्त	प्रतिनियुक्ति की अवधि
सं.	का नाम	से	तक
	श्री/श्रीमती		
1.	के. एन. मंजुनाथ, उप निदेशक, रक्षा मंत्रालय	डीआरटी, बेंगलूर (पूर्वाह्न)	19.10.2009 31.08.2011
2.	देव दत्त, अवर सचिव, कर्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	डीआरटी-I, चंडीगढ़ (पूर्वाह्न)	04.11.2009 03.11.2012
3.	आर. के. झा, अनुभाग अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	डीआरटी-II, चंडीगढ़ (अपराह्न)	26.10.2009 25.06.2010 (अपराह्न) को कार्यमुक्त
4.	बी. जयशंकर, सहायक पंजीयक, उच्च न्यायालय चेन्नै	डीआरटी-I, चेन्नै (अपराह्न)	11.01.2010 10.01.2013
5.	के. थानीकाचलम, सहायक निदेशक, आसूचना ब्यूरो	डीआरटी-II, चेन्नै (पूर्वाह्न)	21.10.2009 20.10.2012
6.	जी. सिंगरावेलू, उप निदेशक, रक्षा मंत्रालय	डीआरटी-III, चेन्नै (पूर्वाह्न)	09.04.2010 08.04.2013
7.	एम. एस. सलिल, उप निदेशक, रक्षा मंत्रालय	डीआरटी, कोयम्बतूर (पूर्वाह्न)	26.10.2009 25.10.2012
8.	रघुबीर सिंह, प्रवक्ता, हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	डीआरटी, जयपुर (पूर्वाह्न)	20.11.2009 14.09.2010 (अपराह्न) को कार्यमुक्त
9.	सुधाकर पाण्डा, अनुभाग अधिकारी, डीआरटी, कटक	डीआरटी-I, कोलकाता (पूर्वाह्न)	01.01.2010 31.12.2012
10.	सुभाष चन्द्र, वरिष्ठ प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया	डीआरटी-II, कोलकाता (पूर्वाह्न)	05.02.2010 04.02.2013
11.	एस. कमाल अब्दुल नजीर, आयकर अधिकारी	डीआरटी, मदुराई (पूर्वाह्न)	22.03.2010 21.03.2013
12.	नरेश कुमार, अवर सचिव, पर्यटन मंत्रालय	डीआरटी-II, मुम्बई (पूर्वाह्न)	09.11.2009 20.08.2010 (अपराह्न) को कार्यमुक्त

हरमीत सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12026/2/2008/डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को (नीचे तालिका के कालम 2 में वर्णित) उनके नामों के सामने तालिका में विहित अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 में, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन सहित प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न ऋण वसूली अधिकारणों में सचिव/पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	चयनित अधिकारी का नाम	नियुक्त	प्रतिनियुक्ति की अवधि
		से	तक
1	2	3	5
	श्री/श्रीमती		
1.	एम. सुब्रमनी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग	डीआरटी, बेंगलूर	18.11.2009 (पूर्वाह्न) 17.11.2012
2.	आर. पाण्डियन, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	डीआरटी-II, चेन्नै	16.10.2009 (पूर्वाह्न) 21.11.2010

1	2	3	4	5
3.	मविस दीपिका सुंदरावदना, सिविल जज, उच्च न्यायालय, चेन्नै	डीआरटी-III, चेन्नै	30.10.2009 (अपराह्न)	29.10.2012
4.	एस. उमरानी, उप निदेशक, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	डीआरटी, कोयम्बतूर	16.11.2009 (पूर्वाह्न)	15.11.2012
5.	ए. कृष्ण कुमार, उप विधि सलाहकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, भूमि एवं भवन विभाग	डीआरटी, हैदराबाद	26.10.2009 (पूर्वाह्न)	25.10.2012
6.	के. के. साहू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय	डीआरटी, नागपुर	30.10.2009 (पूर्वाह्न)	29.10.2012
7.	पी. के. उपाध्याय, उप निदेशक, व्यय विभाग	डीआरटी, रांची	01.12.2009 (अपराह्न)	30.11.2012

डॉ. हरमीत सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12026/2/2008/डीआरटी--केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को (नीचे तालिका के कालम 2 में वर्णित) उनके नामों के सामने तालिका में विहित अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन विहित प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है:--

नं. सं. चयनित अधिकारी का नाम	नियुक्त	प्रतिनियुक्ति की अवधि
		से तक
श्री/श्रीमती		
1. जी. रंगैया, व्यक्तिगत सचिव, डीआरटी, हैदराबाद	डीआरटी, कोयम्बतूर	03.11.2009 (पूर्वाह्न) 02.11.2012
2. के. साई जवाहर, अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय	डीआरटी, हैदराबाद	19.11.2009 (पूर्वाह्न) 18.11.2012
3. सुब्रत दास, वरिष्ठ प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक	डीआरटी-I, कोलकाता	30.10.2009 (पूर्वाह्न) 29.10.2012
4. ए. वेंकटचलपति, सहायक लेखा अधिकारी, डीएजी, (ए एंड ई)-II, नागपुर	डीआरटी, नागपुर	13.11.2009 (पूर्वाह्न) 12.11.2012

डॉ. हरमीत सिंह, अवर सचिव

#### व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. ए-11019/2/2010-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री राजेन्द्र कुमार पुरी को दिनांक 10.08.2010 (पूर्वाह्न) तथा अगले आदेशों तक 15,600--39,100/-रुपए (ग्रेड वेतन 6,600/-रुपए) के वेतनमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, हरियाणा, चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति आधार पर कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. पीएफजी (985)/10-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.10.2010 के आदेश संख्या 4/2/2010 सीएस-I (डी) के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड(I) अधिकारी (अवर सचिव) श्री बी. के. मल्होत्रा को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 12.10.2010 के पूर्वाह्न से पीबी-3,

15,600--39,100+7,600 रुपए (ग्रेड वेतन) पर उप सचिव नियुक्त करते हैं।

जे. एस. गुप्ता, उप सचिव

#### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

#### आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. ए-32015/1/2004-आ.सं. (प्रशा.-I)--राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ अन्वेषकों का कार्यकाल दिनांक 13.11.2010 से 12.05.2011 तक छः महीने की अवधि या नियमित वृत्ति भोगी के पद ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के (वर्ग 'ख' राजपत्रित) पद पर पी.बी.-2 में वेतन रुपये 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रुपये 4,600/- के वेतनमान में बढ़ाया जाता है:--

1. श्रीमती शालिनी भटनागर
2. श्री के. अप्पा राव

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गई है, जिसके लिए उक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को इन पदों पर बने रहने या इन ग्रेडों में वरीयता मांगने या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारियों को उक्त तदर्थ नियुक्ति का कोई कारण बताएं बिना या सूचना आदि दिये बिना ही समाप्त कर सकती है।

एस. एस. दास, अपर आर्थिक सलाहकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. ए-38012/4/2010-स्था.-I--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री वी. सुब्रामण्यन अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 अक्टूबर 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सं. ए-19013/10/08-प्रशा.-I(ए)--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 31.08.2010 के कार्यालय आदेश सं. 5/4/2008-रा.भा. (सेवा) के अनुसरण में तथा इस विभाग की दिनांक 11.01.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, श्री प्रेम सिंह, की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के रूप में 15,600--39,100/- रुपये के पे बैंड में 7,600/- रुपये ग्रेड पे सहित तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 26.05.2010 से अगामी छः मास की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है। तदर्थ नियुक्ति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक जारी रहने अथवा उसी ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 सितम्बर 2010

सं. 19011/12/2010-आईएफएस(.)--राष्ट्रपति, मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के 1990 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री के. एस. सेठी को 21 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उप वन महानिरीक्षक के पद पर 14 जनवरी, 2014 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/49/07-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दिगंत बौरा को दिनांक 19.08.2009 के

पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (पी.एम.आर.) की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/17/08-सीएचएस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुनील को दिनांक 30.09.2008 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में न्यायिक चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 5-14/2009-मा.प्रशा.--राष्ट्रपति, डॉ. एस. गिरिजा, उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन) को दिनांक 25.10.2010 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-3, 7,600/- रुपये के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट ग्राव्हेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोची में निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचिवीय) के पद पर पदोन्नत करती है।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-32014/02/2008-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' (सीएसएल संख्या 347/1989) को दिनांक 08.10.2010 (पूर्वाह्न) से पंचायती राज मंत्रालय सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय में 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ सीएसएसएस कैडर में आशुलिपिक ग्रेड 'क' तथा 'ख' (आमेलित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करती हैं तथा उन्हें चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) वर्ष 2006 के वरिष्ठता कोटे में शामिल किया जाता है।

जॉर्ज वाई, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. ए-19011/12/2010-स्थापना--श्री एन. आर. मिंज की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के ग्रेड-I (अवर सचिव) 31.5.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक जो भी पहले हो अथवा अगले आदेशों तक पदोन्नति तथा दिनांक 3 सितम्बर, 2010 तथा 4 अक्टूबर, 2010 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश

संख्या 5/3/2010-सी.एस.-I (यू.) के ज़रिए संस्कृति मंत्रालय में तैनाती के फलस्वरूप, श्री एन. आर. मिंज, ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. 19011/14/2006-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 03/04/2010-सी.एस.1(डी) द्वारा वर्ष 2010 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पूरक चयन सूची में इनका नाम शामिल करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इस मंत्रालय में इस समय उप सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती संतोष को 21.09.2010 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर पदोन्नत एवं नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

#### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. 3080/एनआईसी/2003-प्रशा. II--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री राहुल त्रिवाणी, (कर्मचारी कोड सं. 3080) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-

एस डी यू. पुणे का वैज्ञानिक/इंजीनियर ग्रेड-एस सी, के पद से त्याग-पत्र दिनांक 20 जून, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

सं. 6215/एनआईसी/2010-प्रशा. II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री घनश्याम गुप्ता, (कर्मचारी कोड सं. 6215) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ राज्य एकक, रायपुर में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "एस बी", के पद से त्याग-पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2010 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा. II)

#### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2010

सं. ए-12025/75/2005-ई-1 (बी)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के सीएसएसएस अधिकारी श्री यति राज सहगल को अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह ख/ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 में अर्हता प्राप्त करते के परिणामस्वरूप, दिनांक 30.08.2010 (अपराह्न) से 9,300--34,800/- रुपये के पे बैंड और 4,800/- रुपये के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में वर्ष 2004 की चयन सूची के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

#### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2010

(सं. 322/2010) फा. सं. 4/1/2008-प्रशा. II (खंड)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 सितम्बर, 2010 के आदेश संख्या 5/3/2010/सीएस- I (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नीचे उल्लिखित अनुभाग अधिकारियों को इस मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, त्रिवाणी प्रत्येक के नाम के सामने दी गई है, 31.05.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान तथा 6,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करती हैं। इन अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रत्येक के नाम के सामने शांति एवं कार्यलयों में तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.	पिछला कार्यालय	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	जहां तैनात किया गया है
(सुश्री/श्री/श्रीमती)					
1.	शिवेन्द्र चतुर्वेदी	6467	आर्थिक कार्य विभाग	07.09.2010 (अपराह्न)	प्रकाशन विभाग (मौजूदा रिक्ति के स्थान पर)
2.	श्रीमती मनमोती कौर	6779	आईपीपी विभाग	08.09.2010 (अपराह्न)	मुख्य सचिवालय (मौजूदा रिक्ति के स्थान पर)
3.	शिव दास सरकार	6780	श्रम और रोजगार मंत्रालय	10.09.2010	आरएनआई (श्री एस. एल. शाह के स्थानांतरण से हुई रिक्ति के स्थान पर)



2. यह तदर्थ पदोन्नति श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक वाली ओ.ए. सं. 3294/2009 तथा श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक वाली ओ.ए. सं. 2674/2009, जोकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), नई दिल्ली के समक्ष लंबित है, के अंतिम निर्णय के अधीन है। इसके अलावा, यह तदर्थ पदोन्नति ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

(सं. 323/2010) फा. सं. 4/1/2008-प्रशा. II (खंड)--इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव ग्रेड में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, अधोलिखित स्थानांतरण और तैनाती के आदेश जारी किए जाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	श्री एस. एल. शाह	आरएनआई	मुख्य सचिवालय, अवर सचिव एफ(एफ) श्री एस. नागनाथन के स्थानांतरण से हुई रिक्ति के स्थान पर
2.	श्री एस. नागनाथन	मुख्य सचिवालय एफ(एफ)	न्यायालय संबंधी मामलों को देखने के लिए मुख्य सचिवालय के प्रसारण स्कंध में स्थानांतरित
3.	श्री शिवेन्द्र चतुर्वेदी	प्रकाशन विभाग	प्रकाशन विभाग की स्टाफ संख्या पर रहते हुए उन्हें 30.11.2010 तक ऋण आधार पर गीत एवं नाटक प्रभाग में अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है। दिनांक 01.12.2010 को वे वापस प्रकाशन विभाग में रिपोर्ट करेंगे
4.	श्रीमती मनमीत कौर	अभी तैनाती की जानी है	मुख्य सचिवालय, अवर सचिव (पीपीसी और आईएफसी), श्री अमृत लाल की पदोन्नति से हुई रिक्ति के स्थान पर

2. श्री एस. नागनाथन प्रसारण स्कंध में तभी जाएंगे जब उनके प्रतिस्थानी श्री एस. एल. शाह, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर लेंगे।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2010

(सं. 327/2010) फा. सं. 4/1/2008-प्रशा. II (खंड)--समसंख्यक मिसिल से जारी इस मंत्रालय के दिनांक 21.09.2010 के कार्यालय आदेश सं. 323/2010 में आंशिक आशोधन करते हुए, इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव ग्रेड में नीचे निर्दिष्ट स्थानांतरण और तैनातियों के आदेश एतद्वारा तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक के लिए जारी किए जाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	श्री एस. नागनाथन	अवर सचिव, एफ(एफ) मुख्य सचिवालय	वे अगले आदेशों तक अवर सचिव एफ(एफ) के रूप में कार्य करते रहेंगे
2.	श्री एस. एल. शाह	आरएनआई	मुख्य सचिवालय में स्थानांतरित और अवर सचिव (वित्त) के रूप में तैनात, स्थानांतरित हुए विशेष कार्य अधिकारी (वित्त) के स्थान पर
3.	श्री राजेन्द्र भट्ट	विशेष कार्य अधिकारी (वित्त), मुख्य सचिवालय	उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे प्रारंभ में 3 माह की अवधि हेतु ऋण आधार पर डीएफपी में अगली तैनाती के लिए निदेशक (आईआईएस), एमएस, को रिपोर्ट करें

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. 372/2010 (फा. सं. 6/2/2007-प्रशा. II)--महामहिम राष्ट्रपति, श्री राजीव टकरू, भा.प्र.से. (गुजरात : 79) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिनांक 13.10.2010 की अपराह्न से अगले आदेशों तक 67,000/- रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से) 79,000/- रु. के एचएजी वेतनमान में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा. I (भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.09.2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-सीएस-I (डी) के तहत वर्ष 2010 के लिए सीएसएस की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) अनुपूरक चयन सूची में सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तिथि से इस मंत्रालय में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4
	(सर्वश्री/श्री)		
1.	वी. के. गुप्ता	21.09.2010 (अपराह्न)	मंत्रालय

1	2	3	4
2.	पी. के. कैलासा बाबू	22.09.2010 (पूर्वाह्न)	मुद्रण निदेशालय
3.	जी. गणेशन	22.09.2010 (पूर्वाह्न)	मुद्रण निदेशालय
4.	मोती लाल	21.09.2010 (अपराह्न)	मंत्रालय
5.	आर. आर. शर्मा	22.09.2010 (पूर्वाह्न)	मंत्रालय

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा. I (भाग)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.10.2010 के कार्यालय आदेश सं. 3/4/2010-सीएस-I (डी) के तहत वर्ष 2010 के लिए सीएसएस की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) अनुपूरक चयन सूची में सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी श्री राकेश कुमार का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर इस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 26th October 2010

No. A. 22012/1/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri P.K. Bali, Under Secretary in the same capacity in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 26th October, 2010 until further orders.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 29th October 2010

No. A. 38012/2/2010-PME—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri M.S.S. Nair, Deputy Secretary in this office, is retired from Govt. service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 27th October 2010

No. RS.3/1/1/2010/99-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-, plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 27th October, 2010 and until further orders :—

- (i) Shri Amit Kumar
- (ii) Smt. A. S. Chakravani

2. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th September 2010

No. PF. 776-R(3)/GN-6469/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 8,000/-, in the order as shown below, with effect from 6th September, 2010 until further orders :—

1. Smt. Indrani Charles
2. Km. Manju Jain

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 801-R(3)/GN-6470/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Directors (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3)

+ Grade Pay of Rs. 7,600/-, in the order as shown below, with effect from 06th September, 2010 until further orders :—

1. Smt. Musarrat Naushad
2. Sh. Sanjeev Sachdeva
3. Smt. Shanta Verma

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 820-R(3)/GN-6471/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the grade of Deputy Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the order as shown below, with effect from 6th September, 2010 until further orders :—

1. Smt. Simmi Moudgil
2. Smt. Urmila Sharma
3. Ms. Lalitha Iyer

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 10th September 2010

No. F. 15/07/2009/GN-6472/AN-I—The resignation tendered by Dr. Sunil Jogi, Additional Private Secretary on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Meira Kumar), has been accepted by the competent authority with effect from the afternoon of 3rd September, 2010.

P. K. GROVER, Joint Secy.

The 20th September 2010

No. F. 22/2/2010/GN-6473/AN-I—Shri Mohammad Motsim, officiating Assistant Editor, has satisfactorily completed the probation period in the grade of Assistant Editor.

2. This is in continuation of Notification No. PF. 1410-R(3)/GN-6000/AN-I/2007—dated 27th November, 2007.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 27th September 2010

No. F. 15/21/2010/AN-I/GN-6474/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri T. K. Viswanathan, former Secretary, Ministry of Law & Justice, Government of India and presently Adviser to Minister for Law & Justice as Secretary General, Lok Sabha and Lok Sabha Secretariat on contract basis in the scale of pay of Rs. 90,000/- (fixed) and in the rank and status of Cabinet Secretary with effect from 1st October, 2010 upto 31st August, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

2. The detailed terms and conditions of his appointment will be issued separately.

P.K. GROVER, Jt. Secy.

The 30th September 2010

No. PF. 1322-R(3)/GN-6475/AN-I/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Jai Bhagwan Sharma, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 30.09.2010.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1316-R(3)/GN-6476/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale promotion to the following Joint Directors (Translation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/-, with effect from 30th September, 2010 until further orders :—

1. Shri Prem Lal Bamrara
2. Shri Navin Chandra Khulbe
3. Shri Bal Ram Suri
4. Smt. Sarita Nagpal
5. Shri Jai Bhagwan Sharma
6. Shri Suresh Chandra Kale
7. Ms. Usha Jain
8. Shri Piyush Chandra Dutta
9. Smt. Parmjeet Karolia
10. Shri Prahlad Munshi
11. Shri Dhani Ram

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. F. 15/21/2010/AN-I/GN-6477/2010—On the expiry of the extended term of contract as Secretary General, Lok Sabha and Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to permit Shri P. D. T. Achary to relinquish the Office of the Secretary-General with effect from the afternoon of 0th September, 2010.

2. The Speaker is also pleased to appoint Shri P.D.T. Achary as Honorary Officer of the House (Lok Sabha) with effect from the aforesaid date.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

#### (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 29th October 2010

No. A. 38012/06/2010-Admn.IV(LA) :—On attaining the age of superannuation, Shri Bijendra Kumar Bhargava, Additional Legal Adviser, Department of Legal Affairs, Ranch Secretariat, Bangalore retires from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

ASHA SOTA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 22nd October 2010

No. K. 13017/5/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Gian Parkash Mittal, to be an Additional Judge of the Delhi High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 13th October 2010

No. K. 11017/16/2010-US.II(v)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Ashutosh Mohunta, Judge, Punjab & Haryana High Court, as a Judge of the Andhra Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Andhra Pradesh High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(vi)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Vinod Kumar Sharma, Judge, Punjab & Haryana High Court, as a Judge of the Madras High Court and to direct him to assume charge of his office in the Madras High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(vii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Harjinder Singh Bhalla, Judge, Punjab & Haryana High Court, as a Judge of the Orissa High Court and to direct him to assume charge of his office in the Orissa High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(viii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Sri Niwas Aggarwal, Judge, Delhi High Court, as a Judge of the Madhya Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Madhya Pradesh High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(ix)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shrimati Justice Aruna Suresh, Judge, Delhi High Court, as a Judge of the Orrisa High Court and to direct her to assume charge of her office in the Orrisa High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(xi)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Bhabani Prasad Ray, Judge, Orissa High Court, as a Judge of the Kerala High Court and to direct him to assume charge of his office in the Kerala High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(x)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Muttaci Jeyapaul, Judge, Madras High Court, as a Judge of the Punjab & Haryana High Court and to direct him to assume charge of his office in the Punjab & Haryana High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(i)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Vijay Manohar Sahai, Judge, Allahabad High Court, as a Judge of the Gujarat High Court and to direct him to assume charge of his office in the Gujarat High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(ii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Smt. Poonam Srivastava, Judge, Allahabad High Court, as a Judge of the Jharkhand High Court and to direct her to assume charge of her office in the Jharkhand High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(iv)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice

of India, is pleased to transfer Justice Shri Dantuluri Srinivasa Ranganatha Varma, Judge, Andhra Pradesh High Court, as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 28th October, 2010.

S.K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K. 11017/16/2010-US.II(iii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Smt. Toom Meena Kumari, Judge, Andhra Pradesh High Court, as a Judge of the Patna High Court and to direct her to assume charge of her office in the Patna High Court on or before 28th October, 2010.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th October 2010

No. I-11014/5/2010-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Assam, Meghalaya and Kerala, the Central Government hereby transfer Ms. Uma, IPS (Assam-Meghalaya : 2007) from Assam-Meghalaya to the IPS Cadre of Kerala on the ground of her marriage with Shri Debesh Kumar Behera, IPS (Kerala : 2007).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

#### MINISTRY OF PERSONNEL

##### PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

##### (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110001, the 27th October 2010

No. 24012/3/2010-AIS-II—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Ravneet Singh, IAS (KTK : 2005) a member of the Indian Administrative Service, borne on the cadre of Karnataka from the Indian Administrative Service with effect from the date of issue of this notification.

ROLI SINGH, Director (Services)

New Delhi, the 28th October 2010

No. A-32013/3/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Priya Mahadevan, a permanent Section Officer of CSS cadre of Department of Economic Affairs, to Grade-I of CSS as Under Secretary in the Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 1st October, 2010 until further orders.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

##### OFFICE OF PROTOCOL OFFICER-III

New Delhi, the 21st October 2010

No. D-III/460/CF-40/2010—The President is pleased to recognise the appointment of Ms. Upekkha Samratunga as

Consul General of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Upekkha Samratunga comprises the States of Maharashtra, Goa and Gujarat.

VINAY KUMAR, Protocol Officer-III

### MINISTRY OF FINANCE

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

#### DIRECTORATE OF CURRENCY

New Delhi, the 25th October 2010

No. 1/6/2010-SPMC—On his completion of the probation period successfully, the President is pleased to appoint Shri D. R. Rohilla as Chemist (Ink Technologist) Grade-I (Group 'A'-Gazetted) carrying the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the substantive capacity in the Bank Note Press, Dewas (MP) with effect from 30th September, 1988 (FN).

B. S. RAWAT, Director (C&C)

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 25th October 2010

No. A-12026/2/2008-DRT.—The Central Government is pleased to appoint the following officers (in column No. 2 of the below table) to the post of Recovery Officer in various Debt Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period mentioned in the table against their names or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the officer selected	Posted in	Period of deputation	
			From (dd/mm/yy)	To (dd/mm/yy)
1	2	3	4	5
	Shri/Smt.			
1.	K. N. Manjunatha, Deputy Director, Ministry of Defence	DRT, Bangalore	19.10.2009 (F/N)	31.08.2011
2.	Dev Dutt, Under Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	DRT-I, Chandigarh	04.11.2009 (F/N)	03.11.2012
3.	R. K. Jha, Section Officer, Ministry of Information and Broadcasting	DRT-II, Chandigarh	26.10.2009 (A/N)	Relieved on 25.06.2010 (A/N)
4.	V. Jaisankar, Assistant Registrar, High Court, Chennai	DRT-I, Chennai	11.01.2010 (A/N)	10.01.2013
5.	K. Thanikachalam, Assistant Director, Intelligence Bureau	DRT-II, Chennai	21.10.2009 (F/N)	20.10.2012

1	2	3	4	5
	Shri/Smt.			
6.	G. Singaravelu, Deputy Director, Ministry of Defence	DRT-III, Chennai	09.04.2010 (F/N)	08.04.2013
7.	M. S. Salil, Deputy Director, Ministry of Defence	DRT, Coimbatore	26.10.2009 (F/N)	25.10.2012
8.	Raghubir Singh, Reader, Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission	DRT, Jaipur	20.11.2009 (F/N)	Relieved on 14.09.2010 (A/N)
9.	Sudhakar Panda, Section Officer, DRT, Cuttack	DRT-I, Kolkata	01.01.2010 (F/N)	31.12.2012
10.	Subhas Chandra, Senior Manager, Union Bank of India	DRT-II, Kolkata	05.02.2010 (F/N)	04.02.2013
11.	S. Kamal Abdul Nazer, Income Tax Officer	DRT, Madurai	22.03.2010 (F/N)	21.03.2013
12.	Nareish Kumar, Under Secretary, Ministry of Tourism	DRT-II, Mumbai	09.11.2009 (F/N)	Relieved on 20.08.2010 (A/N)

HARMEET SINGH

Under Secy.

No. A-12026/2/2008-DRT.—The Central Government is pleased to appoint the following officers (in column No. 2 of the below table) to the post of Secretary/Registrar in various Debt Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period mentioned in the table against their names or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the officer selected	Posted in	Period of deputation	
			From (dd/mm/yy)	To (dd/mm/yy)
1	2	3	4	5
	Shri/Smt.			
1.	M. Subramani, Sr. Research Officer, Department of Financial Services	DRT, Bangalore	18.11.2009 (F/N)	17.11.2012
2.	R. Pandiyan, Under Secretary, Ministry of Women and Child Development	DRT-II, Chennai	16.10.2009 (F/N)	21.11.2010
3.	Mavis Deepika Sundaravadhana, Civil Judge, High Court, Chennai	DRT-III, Chennai	30.10.2009 (A/N)	29.10.2012
4.	S. Umarani, Deputy Director, Naval Hqrs., Ministry of Defence	DRT, Coimbatore	16.11.2009 (F/N)	15.11.2012
5.	A. Krishna Kumar, Deputy Legal Advisor, Govt. of NCT of Delhi, Land and Building Department	DRT, Hyderabad	26.10.2009 (F/N)	25.10.2012

1	2	3	4	5
	Shri/Smt.			
6.	K. K. Sahu, Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines	DRT, Nagpur	30.10.2009 (F/N)	29.10.2012
7.	P. K. Upadhyay, Deputy Director, Department of Expenditure	DRT, Ranchi	01.12.2009 (A/N)	30.11.2012

HARMEET SINGH  
Under Secy.

No. A-12026/2/2008-DRT.—The Central Government is pleased to appoint the following officers (in column No. 2 of the below table) to the post of Assistant Registrar in various Debt Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + with Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period mentioned in the table against their names or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the officer selected	Posted in	Period of deputation From To (dd/mm/yy) (dd/mm/yy)	
	Shri/Smt.			
1.	G. Rangaiah, Private Secretary, DRT, Hyderabad	DRT, Coimbatore	03.11.2009 (F/N)	02.11.2012
2.	K. Sai Jawahar, Section Officer, Ministry of Water Resources	DRT, Hyderabad	19.11.2009 (F/N)	18.11.2012
3.	Subrata Das, Senior Manager, Indian Overseas Bank	DRT-I, Kolkata	30.10.2009 (F/N)	29.10.2012
4.	A. Venkatachalapathy, Assistant Accounts Officer, DAG (A&E)-II, Nagpur	DRT, Nagpur	13.11.2009 (F/N)	12.11.2012

HARMEET SINGH  
Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 26th October 2010

No. A-11019/2/2010-EG.—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Kumar Puri of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Pr. Accountant General (Audit), Haryana, Chandigarh, in the scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 10.08.2010 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 25th October 2010

No. PFG(985)/10-Ad.-I—In terms of Department of Personnel and Training's Office Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated 08.10.2010, the President is pleased to appoint Shri B. K. Malhotra, an officer of Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 12.10.2010 in PB-3, Rs. 15,600—39,100+7,600(GP).

J. S. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

##### (OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 27th October 2010

No. A-32015/1/2009-Ec. Ad (Admn.-I)—The President is pleased to further extend the adhoc appointment of the following Junior Investigators of the Office of the Economic Adviser as Economic Officers, Group 'B' Gazetted in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/- in this office for a period of six months w.e.f. 13.11.2010 to 12.05.2011 or till the regular incumbents joins this office whichever is earlier:—

1. Smt. Shalini Bhatnagar

2. Shri K. Appa Rao

The appointment is made purely on adhoc basis and does not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority, etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the adhoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

S. S. DAS, Addl. Economic Adviser

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 25th October 2010

No. A-38012/4/2010-E.I.—Shri V. Subramanian, Deputy Secretary of the CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th October 2010

No. A-19013/10/08-Admn.-I(A)—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Office

Order No. 5/4/2008-OL(S) dated 31.08.2010 and in continuation of this Department's Notification of even number dated 11.01.2010, the appointment of Shri Prem Singh as Joint Director (OL) on adhoc basis in the Department of Science & Technology in the Pay Band Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- is extended for a further period of six months w.e.f. 26.05.2010 or until further orders, whichever is earlier. The adhoc appointment will not confer on him any right to continue in the Grade indefinitely or to claim seniority in the Grade.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 21st September 2010

No. A-19011/12/2010-IFS-I(.)—The President is pleased to appoint Sh. K. S. Sethi, an Indian Forests Service Officer belonging to 1990 batch of Manipur-Tripura Cadre, to the post of Deputy Inspector General of Forests in the Ministry of Environment & Forests with effect from forenoon of 21st September, 2010 for the period upto 14th Jan, 2014 or until further orders whichever is earlier.

O. P. JOSHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 26th October 2010

No. A-12025/49/07-CHS.-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Diganta Borah to the post of Assistant Professor in the specialty of Physical Medicine & Rehabilitation (P.M.R.) in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 19.08.2009 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 28th October 2010

No. A. 12025/17/08-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sunil to the post of Assistant Professor in the specialty of Forensic Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service on probation with effect from the afternoon of 30.09.2008 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi-01, the 29th October 2010

No. 5-14/2009-Fy. Admn.—The President is pleased to promote Dr. S. Girija, Deputy Director (Processing &

Marketing) to the post of Director (General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi with effect from 25.10.2010 (FN).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th October 2010

No. A-32014/02/2008-Estt. II—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, a regular Stenographer Grade 'C', (CSL No. 347/1989) as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) (PS) of the CSSS cadre in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-, in the Ministry of Rural Development including the Ministry of Panchayati Raj w.e.f. 08.10.2010 (FN) and included in the Seniority quota of Select List Year-2006.

GEORGE Y., Under Secy.

#### MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 13th October 2010

No. A-19011/12/2010-Estt.—Consequent on his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training orders No. 5/3/2010-CS.I (U) dated 3rd September, 2010 and 4th October, 2010. Shri N. R. Minz has assumed the charge of Under Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 13th October, 2010.

VANITA SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th October 2010

No. 19011/14/2006-Estt.—Consequent upon the inclusion of her name in the Supplementary Select List of CSS for the Select List of CSS 2010 in the Selection Grade (Director) vide Department of Personnel and Training Office Order No. 3/4/2010-CS.I (D) dated 21.09.2010, the President is pleased to promote and appoint Ms. Santosh presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs to the post of Director in Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 21.09.2010.

A. K. SAHA, Under Secy.



MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 27th October 2010

No. 3080/NIC/2003-Adm-II—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rahul Dev Sharma, (Emp. Code No. 3080), NIC-SDU, Pune from the post of Scientist/Engineer Grade SC, with effect from the afternoon of 20.06.1996 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm.II)

No. 6215/NIC/2010-Adm-II—Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Shri Ghanshyam Gupta,

(Emp. Code No. 6215), from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', National Informatics Centre—Chhattisgarh State Unit, Raipur, with effect from the afternoon of 27.04.2010 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Director (Adm.II)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 9th September 2010

No. A-12025/75/2005-E.I (B)—The President is pleased to appoint Shri Yati Raj Sehgal, CSSS officer of Ministry of Finance as Steno Grade 'A & B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2004 in the Ministry of Road Transport & Highways consequent on qualifying Section Officers/Stenographers (Gr. B/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2004, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 30.08.2010 (AN).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st September 2010

No. 4/1/2008-Admn. II(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I (U) dated 3rd September, 2010 the President is pleased to appoint the undermentioned Section Officers of Central Secretariat Service to the Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on adhoc basis in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting for a period upto 31.05.2011 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, with effect from the date of their joining in this Ministry as mentioned against each. These officers are posted in the offices mentioned against each w.e.f. their date of joining:—

Sl. No.	Name	CSL No.	Previous Office	Date of Joinging in I&B	Posted to
	S/Sh/Smt.				
1.	Shivendera Chaturvedi	6467	D/o Economic Affairs	07.09.2010 (AN)	DPD (against an existing vacancy)
2.	Manmeet Kaur	6779	D/o IPP	08.09.2010 (AN)	Main Sectt. (against an existing vacancy)
3.	Shib Das Sarkar	6780	M/o Labour & Employment	10.09.2010	RNI (vice. Sh. S. L. Shah transferred)

2. This adhoc promotion is subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009 titled Sh. P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors. pending before the CAT, New Delhi. Further this adhoc promotion is subject to other conditions mentioned in DoP&T's O. M. referred to in para 1 above.

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 323/2010 (F. No. 4/1/2008-Admn.II (Pt.))—The under-mentioned transfers and postings in the grade of Under-Secretary of CSS cadre of this Ministry are hereby ordered with immediate effect and until further orders:—

Sl. No.	Name	Present Posting	New Posting
	S/Sh./Smt.		
1.	S. L. Shah	RNI	Main Sectt. posted as USF (F) vice Sh. S. Naganathan transferred
2.	S. Naganathan	Main Sectt. F(F)	Transferred to Broadcasting Wing in the Main Sectt. for dealing with court cases.
3.	Shivendera Chaturvedi	DPD	While being on the strength of DPD, he is temporarily posted to Song & Drama Division on loan basis till 30.11.2010. On 01.12.2010, he will report back in DPD.
4.	Manmeet Kaur	Under-posting	Main Sectt., US (PPC & IFC), vice Sh. Amrit Lal promoted.

2. Sh. S. Naganathan will move to Broadcasting Wing only after his reliever, Sh. S. L. Shah, reports for duty.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 27th September 2010

No. 327/2010 (F.No. 4/1/2008-Admn.-II(Pt.))—In partial modification of this Ministry's Office Order No. 323/2010 dt./21/09/10 issued from file of even no., the under mentioned transfers and postings in the grade of Under Secretary of CSS cadre of this Ministry are hereby ordered with immediate effect and until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Posting	New Posting
1.	Sh. S. Naganathan	US, F(F) Main Sectt.	He will continue to function as US F(F) until further orders.
2.	Sh. S. L. Shah	RNI	Transferred to Main Sectt, and Posted as Under Secretary (Finance) vice Sh. Rajendra Bhatt (OSD Finance) transferred
3.	Sh. Rajendra Bhatt	OSD (Finance), Main Sectt.	He is directed to report to Director, (IIS) MS, for further posting in DFP on loan basis for a period of 03 months initially.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 15th October 2010

No. 372/2010 (F.No. 6/2/2007-Admn.-II)—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Takru, IAS (GJ:79) as Additional Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting in the HAG Scale of Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%) — 79,000/- with effect from the afternoon of 13.10.2010, until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th October 2010

No. A-22017/1/2007-Adm.I(Pt.)—Consequent upon their inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 by the Department of Personnel & Training vide Office Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 21.09.2010, the President is pleased to appoint the following Selection Grade (Deputy Secretary) officers of CSS as Director in this Ministry on regular basis with effect from the date(s) as indicated against them:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as Director	Present Posting
	S/Shri		
1.	V. K. Gupta	21.09.2010 (AN)	Ministry
2.	P. K. Kailasababu	22.09.2010 (FN)	Dte. of Printing
3.	G. Ganesan	22.09.2010 (FN)	Dte. of Printing
4.	Moti Lal	21.09.2010 (AN)	Ministry
5.	R. R. Sharma	22.09.2010 (FN)	Ministry

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

No. A-22017/1/2007-Admn.I(Pt.)—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) Supplementary Select List of CSS for the year 2010 by the Department of Personnel & Training vide Office Order No. 3/4/2010-CS.I(D) dated 01.10.2010, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Kumar, a Selection Grade (Deputy Secretary) Officer of CSS as Director in this Ministry on regular basis with effect from 01.10.2010 (FN).

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)